

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर 2018—आश्विन 4, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2018

अधि. क्र. 30-एफ-1-06-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को सम्मिलित कर नगर परिषद्, मगरौनी, जिला शिवपुरी का गठन करती है :-

अनुसूची-1

स. क्र.	जिला	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शिवपुरी	मगरौनी	मगरौनी	425.15
2		किशनपुर	किशनपुर	291.99
3		निजामपुर	निजामपुर	463.19
			गढोला	136.08

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2018

पृष्ठांकन अधि. क्र. 30-एफ-1-06-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक अधि. क्र. 30-एफ-1-06-2018-अठारह-3, दिनांक 26 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.

Bhopal, the 26th September 2018

Noti. No. 30-F-1-06-2018-XVIII-3.—In exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), The State Government, hereby, constitutes the Municipal Council, Magrouni comprising the villages of village panchayat mentioned in the table given below, namely :—

S. N.	District	Name of the village panchayat	Areas Included/ detail of Village	Areas Included
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shivpuri	Magrouni	Magrouni	425.15
2		Kishanpur	Kishanpur	291.99
3		Nizampur	Nizampur	463.19
			Gadola	136.08

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LOKESH KUMAR JANGID, Dy. Secy.